



# Tagore Public School, Surajgarh

## Home Assignment - II

### Class - IV

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Computer :-</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uses of computer ? Any ten.</li><li>2. Write any four characteristics of computer ?</li><li>3. Write any four safety tips for computer.</li><li>4. Write down the input devices along with their diagram.</li><li>5. Write down the output devices along with their diagrams.</li><li>6. Unscramble these words :-<ol style="list-style-type: none"><li>i. SMEUO</li><li>ii. EAYBDOKR</li><li>iii. FTSARWEO</li><li>iv. TOUPTU</li><li>v. IPUNT</li><li>vi. MORNITO</li><li>vii. MEMYRO</li><li>viii. GSAME</li></ol></li></ol>                        |
| <b>Hindi :-</b>    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. भाषा किसे कहते हैं ?</li><li>2. भाषा के भेद नाम सहित परिभाषित कीजिए।</li><li>3. लिपि किसे कहते हैं ? लिपि को चार्ट के माध्यम से समझायें।</li><li>4. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ?</li><li>5. व्याकरण किसे कहते हैं ?</li><li>6. वर्ण किसे कहते हैं ?</li><li>7. स्वर तथा व्यंजन अलग-अलग लिखक समझाये।</li></ol>   |
| <b>English :-</b>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. List out vowels and consonants ?</li><li>2. What are parts of speech ?</li><li>3. What is noun and pronoun ?</li><li>4. Write two examples of adjective, verb and adverb ?</li><li>5. List out commonly used conjunctions ?</li><li>6. Write five points how you spent your 2020 summer vacations ?</li></ol>  |
| <b>Maths :-</b>    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Find the area of that rectangles whose length and breadth are given below -<ol style="list-style-type: none"><li>i. Length = 10 m<br/>Breadth = 8 m</li><li>ii. Length = 15 m<br/>Breadth = 7 m</li><li>iii. Length = 20 m<br/>Breadth = 14 m</li><li>iv. Length = 16 m<br/>Breadth = 10 m</li><li>v. Length = 18 m<br/>Breadth = 8 m</li></ol></li><li>2. Find out the Area and Perimeter of that rectangles whose lengths and breadths are given below -<ol style="list-style-type: none"><li>i. Length = 10 m<br/>Breadth = 5 m</li></ol></li></ol> |

- ii. Length = 20 m  
Breadth = 8 m
- iii. Length = 10 cm  
Breadth = 5 cm
- iv. Length = 20 m  
Breadth = 12 m

*Note :-*

*All the students are hereby informed that your Assignment - II should be submitted on or before **05 June 2020** on Whats App number of your subject teacher.*

